

बालभवन बालिका विद्यापीठ लखीसराय

कक्षा – चतुर्थ

दिनांक – 11- 01- 2021

विषय -हिन्दी

विषय शिक्षक -पंकज कुमार

एन, सी, ई, आरटी, पर आधारित

सुप्रभात बच्चों आज अनौपचारिक पत्र लेखक के बारे में अध्ययन करेंगे ।

अनौपचारिक पत्र

मित्र की माता के आकस्मिक निधन पर एक संवेदना पत्र लिखिए

12/16, विजय नगर

देहरादून 16 अगस्त 2018

प्रिय मित्र वीरेंद्र

सप्रेम नमस्ते

कल फोन से तुम्हारी माताजी के निधन का दुखद समाचार मिला। सुनकर हृदय को गहरा आघात लगा। परसों में जब तुम्हारे पास था तब तक तो कोई चिंता की बात नहीं थी। तुमने भी कभी उनकी किसी बीमारी या दुखी चर्चा नहीं की। फिर अचानक उयाह अनहोनी कैसे हो गई? मेरा मन अभी तक इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि क्या सच में आपकी माता जी अब हमारे बीच नहीं रही! एक दिन पहले ही की गई ढेर सारी बातें, उनका दुलार और उनका स्नेह भरा हाथ अपने सर पर अभी अपने महसूस कर रहा हूं।

बहुत कठिन काम है फिर भी इस दुख की घड़ी में खुद अपने आप को संभालना। तुम परिवार में बड़े हो इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी अधिक है। मानता हूं कि मां के स्नेह और ममता के सामने सब कुछ बेकार है। किन्तु ईश्वर की इच्छा के सामने हम सब विवश हैं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वह माता जी की आत्मा को शांति प्रदान करें और तुम्हें यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें।

तुम्हारा शोकाकुल मित्र

नरेश

अनौपचारिक पत्र

छोटी बहन को पत्र लिखकर पढ़ाई के प्रति सजग होने की सलाह दीजिए

12 संजय नगर

मेरठ 17 दिसंबर 2019

प्रिय सुनीता

शुभाशीष

दो दिन पहले तुम्हारी छात्रावास की मित्र का पत्र प्राप्त हुआ। शायद तुम समझ गई होंगी तो उसने यह पत्र क्यों लिखा था। आजकल तुम गलत लड़कियों के साथ अपना समय अधिक बता रही हो तथा तुम्हारा ध्यान पढ़ाई से हटकर दूसरे विषयों की ओर जा रहा है। यह जानकर हमें अत्यधिक दुख हुआ।

तुम यह बहुत अच्छी तरह जानती हो कि छात्रावास में भेजने का मूल कारण क्या था? मां और पिताजी दोनों ही चाहते हैं कि तुम पढ़ लिखकर अपना कैरियर बनाओ और इसके लिए तुम्हें अध्ययन की तरफ ध्यान लगाना होगा। अध्ययन शील व्यक्ति ही जीवन में कुछ बन सकता है। अध्ययन केवल ज्ञान बुद्धि नहीं करता बल्कि सही रास्ता दिखाकर कुसंगति से भी बचाता है। पढ़ाई का भी अपना एक अलग ही आनंद होता है। पढ़ाई हमें साधारण व्यक्तियों की श्रेणी से ऊपर उठा देती है। नियमित रूप से पढ़ाई में ध्यान लगाने वाले व्यक्ति जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं और उच्च स्थान को प्राप्त करते हैं।

मैं भी चाहती हूँ कि तुम मेरी बातों पर ध्यान दो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर पढ़ाई करो। तुम जीवन में निश्चित ही सफल होगी और अपने माता-पिता को गर्व करने का अवसर दोगी।

तुम्हारी बड़ी बहन

प्रियंका